



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2759]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 21, 2015/अग्रहायण 30, 1937

No. 2759]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 21, 2015/AGRAHAYANA 30, 1937

नगर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3477(अ).- वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 4क के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार एतद्वारा उक्त धारा में उल्लिखित कृत्यों का निष्पादन करने के लिए नीचे विनिर्दिष्ट अधिकारियों को प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

विमान दिक्चालन सेवा

1. श्री आर एस डागर
2. श्रीमती बीना बिष्ट
3. श्री वी बी सिंह
4. श्री जितेन्द्र उत्रेजा
5. श्री एन सी गुप्ता
6. श्री ज्योति प्रसाद
7. श्री जे एम एस नेगी
8. श्री राजीव रॉय सक्सेना
9. ग्रुप कैप्टन राजबीर सिंह सहारन (सेवा निवृत्त)
10. विंग कमांडर अपूर्व शर्मा (सेवा निवृत्त)
11. श्री महेश प्रकाश अग्निहोत्री
12. श्री विश्वनाथ
13. एयर वाइस मार्शल पी आर सिन्हा (सेवा निवृत्त)

विमान क्षेत्र मानक

1. श्री अनिल कुमार कालरा
2. श्री विजय यादव
3. श्री संजय कुमार
4. श्री वाई वी सुब्रामनियम
5. श्री पुरषोत्तम
6. श्री वाई सी कटोच
7. श्री एस के सिंह
8. श्री गोविन्द राम
9. श्री एस. सुभागम

खतरनाक माल

1. श्री प्रकाश मीरचंदी
2. श्री सीडी लोकेन्द्र नाथ
3. श्री पंकज डेविड
4. श्री वेनांटियस डी' सूजा
5. श्री आनंद सागर पुरी
6. श्री एम चन्द्रन
7. श्री सुरेश अनन्त नारायणन

2. यह प्राधिकार पत्र तभी तक विधिमान्य रहेगा जब तक महानिदेशक नागर विमानन द्वारा रखे गए उपर्युक्त अधिकारी उक्त धारा के अधीन कृत्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

[फा. सं. एवी.11012/149/2015-ए]

अरुण कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th December, 2015

S.O. 3477(E).— In pursuance of Section 4A of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby authorizes the officers specified below for the purpose of the said section, namely:-

Air Navigation Services

1. Shri R.S. Dagar
2. Mrs Veena Bisht
3. Shri V.B. Singh
4. Shri Jitender Utreja
5. Shri NC Gupta

6. Shri Joyti Prasad
7. Shri JMS Negi
8. Shri Rajiv Roy Saxena
9. Gp. Capt. Rajbir Singh Saharan (Retd)
10. Wing Cdr. Apurva Sharma (Retd)
11. Shri Mahesh Prakash Agnihotri
12. Shri Vishwanath
13. Air Vice-Marshal PR Sinha (Retd)

Aerodromes Standards

1. Shri Anil Kumar Kalra
2. Shri Vijay Yadav
3. Shri Sanjay Kumar
4. Shri YV Subramaniam
5. Shri Purshottam
6. Shri YC Katoch
7. Shri SK Singh
8. Shri Govind Ram
9. Shri S Subhagam

Dangerous Goods

1. Shri Prakash Mirchandi
2. Shri CD Lokender Nath
3. Shri Pankaj David
4. Shri Venantius Di'Souza
5. Shri Anand Sagar Puri
6. Shri M. Chandran
7. Shri Suresh Ananthanarayanan

[F. No. AV.11012/149/2015-A]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3478(अ).— वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 4क के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार एतद्वारा उक्त धारा में उल्लिखित कृत्यों का निष्पादन करने के लिए नीचे विनिर्दिष्ट अधिकारियों को प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

1. संयुक्त महानिदेशक, नागर विमानन
2. उप महानिदेशक, नागर विमानन
3. मुख्य उड़ान प्रचालन निरीक्षक

4. निदेशक, उड़न योग्यता
5. उप निदेशक, उड़न योग्यता
6. सहायक निदेशक, उड़न योग्यता
7. उड़न योग्यता अधिकारी
8. निदेशक, विमान सुरक्षा
9. उप निदेशक, विमान सुरक्षा
10. क्षेत्रीय नियंत्रक, विमान सुरक्षा
11. सहायक निदेशक, विमान सुरक्षा
12. वरिष्ठ विमान सुरक्षा अधिकारी
13. विमान सुरक्षा अधिकारी
14. निदेशक, विनियम एवं सूचना
15. उप निदेशक, विनियम एवं सूचना
16. निदेशक (प्रचालन)
17. उप निदेशक (प्रचालन)
18. सहायक निदेशक (प्रचालन)
19. प्रचालन अधिकारी
20. निदेशक, उड़ान प्रशिक्षण
21. उप निदेशक, उड़ान प्रशिक्षण
22. निदेशक, वायुयान इंजीनियरी
23. उप निदेशक, वायुयान इंजीनियरी
24. सहायक निदेशक, वायुयान इंजीनियरी
25. उप निदेशक (मौसम विज्ञान)
26. वैमानिक अधिकारी
27. केबिन सुरक्षा निरीक्षक
28. खतरनाक माल निरीक्षक

[फा. सं. एवी.11012/149/2015-ए]

अरुण कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2015

S.O. 3478(E).— In pursuance of Section 4A of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby authorizes the following officers of the Directorate General of Civil Aviation for carrying out the functions mentioned in the said section namely:-

1. Joint Director General of Civil Aviation.
2. Deputy Director General of Civil Aviation.
3. Chief Flight Operations Inspector
4. Director of Airworthiness
5. Deputy Director of Airworthiness
6. Assistant Director of Airworthiness

7. Airworthiness Officer
8. Director of Air Safety
9. Deputy Director of Air Safety
10. Regional Controller of Air Safety
11. Assistant Director of Air Safety
12. Senior Air Safety Officer
13. Air Safety Officer
14. Director of Regulation & Information
15. Deputy Director of Regulation & Information
16. Director (Operations)
17. Deputy Director (Operations)
18. Assistant Director (Operations)
19. Operations Officer
20. Director Flying Training
21. Deputy Director Flying Training
22. Director of Aircraft Engineering
23. Deputy Director of Aircraft Engineering
24. Assistant Director of Aircraft Engineering
25. Deputy Director (Met)
26. Aeronautical Officer
27. Cabin Safety Inspector
28. Dangerous Goods Inspector

[F. No.AV.11012/149/2015-A]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.